



कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमण्डल राजगीर (नालन्दा)

Email:- rwdrajgir@gmail.com, ee.rajgir@rwdbihar.in

पत्रांक.....118(अनु०)

राजगीर

दिनांक.....30.01.2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल राजगीर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

विषय:- नई अनुरक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना मद अन्तर्गत व्यय हेतु आवंटन की माँग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नई अनुरक्षण नीति 2018 शीर्ष MR-3054 योजना मद अन्तर्गत व्यय हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना पत्र संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये गये कार्यों का भुगतान किया जा सके। संबंधित संवेदक का इस प्रमण्डल में कोई ATR लम्बित नहीं है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल राजगीर

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision(I) below Rule-150)

Utilisation Certificate upto the month of Jan- 2024

STATE – BIHAR

MR(3054) New Maintaince Policy 2018

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (In Rs. Lacs)	Amount Received (In Lacs)	Particulars
1	MR(3054) New Maintaince Policy 2018	Letter No.-07 Date-27.12.2024	6219.52643	Certified that out of 6219.52643 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2020-21, 2021-22, 2022-2023, 2023-24 & 2024-25 in favour of E-in-C, RWD Bihar, Patna a sum of Rs 6174.58064 been utilized for the purpose of MR(3054) New Maintaince Policy 2018 as given in the margin for which it was sanctioned and the balance of Rs 44.94579 remaining unutilized at the end of the period under.
		Total	6219.52643	


- 2 Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned



Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer./
- Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works
- Construction of CD works.


DAO
RWD, Works Division
Rajgir (Nalanda)


Executive Engineer
RWD, Works Division
Rajgir (Nalanda)


RWD: Works Division : Rajgir


- 1 Signed Hard Copy and Soft Copy (In Excel) of recorded IRI is enclosed.
- 2 Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS

10/12/2017

Executive Engineer
RWD (W) Division Rajgarh

Rajgarh
29/1/25

File : D:\Office\Allotment Requestion\Bump Report\05.06.2024 Ravi dk verma manish\004051720229.xlsx Section
Name of Customer : Manish, Name of Work/ Road : Nirpur mari path se jalalpur gramini path, Lab Job number :



5/2/11/2024

manish

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
30/12/25	11:44:54	89	0.1	260	20.2	2600	3186	G	25.141844	85.420217	Normal
30/12/25	11:45:05	89	0.1	270	30.3	2700	2909	G	25.141985	85.420682	Normal
30/12/25	11:45:17	89	0.1	240	30.3	2400	3058	G	25.14191	85.422482	Normal
30/12/25	11:45:28	89	0.1	270	30.3	2920	3191	G	25.141865	85.420011	Curve
30/12/25	11:45:39	89	0.1	280	40.4	2809	3013	G	25.14234	85.419361	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 5507$$

$$Y = 6388$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor

<4000 4001-5000 >5001

2011/12/25

2011/12/25

